

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 25—अक्टूबर 31, 2014 (कार्तिक 3, 1936)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25—OCTOBER 31, 2014 (KARTIKA 3, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 सितम्बर 2014

सं.-ओ.दो.3987/2014-कार्मिक(चि.अ.)—राष्ट्रपति जी डॉ० किरनकुमार मंदला को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रु. 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 15.09.2014(पूर्वान्ह) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विवेक वैद
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 29 सितम्बर, 2014

संख्या: ओ.दो.3980/14-कार्मिक(चिकित्सा)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. अरविंद श्रीमंत सदाफुले, चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट), ईरला- 10349, कम्पोजिट अस्पताल, के.रि.पु.बल, पुणे द्वारा दिनांक 12/09/2014(अपराह्न) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, उक्त अधिकारी का नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 12/09/2014(अपराह्न) से हटाया जाता है।

विवेक वैद
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा

नई दिल्ली-110002, दिनांक 28 अगस्त 2014

संख्या : ए.एम.जी.-1/प्रशासन-1/2(1)राजपत्र/2014/559—प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पे बैंड-2 में रु. 9,300-34,800/- तथा रु. 5,400/- के ग्रेड पे में लेखापरीक्षा अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति होने के आदेश देते हैं।

क्रम संख्या	नाम सर्वश्री	तिथि
1.	सुधीर कान्त शर्मा	01.03.2013
2.	ललित कुमार निम्बल	02.09.2013
3.	गोपाल ठाकुर	01.01.2014
4.	राजेश कुमार	01.04.2014
5.	एस के असगर अली	11.06.2014
6.	राकेश कुमार	01.07.2014
7.	पी आर पचापुर	01.07.2014

वी.एम.वी. नवल किशोर
निदेशक (प्रशासन)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110124, दिनांक 30 सितम्बर 2014

सं. 270-जी.ई.1/13-2006—भारतीय लेखा एवं परीक्षा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र दे चुके हैं:-

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम तथा पदनाम	सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र की तिथि
	सर्वश्री/सुश्री	
1.	के. पी. शशीधरण, महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय, मुम्बई	दिनांक 31.08.2014 (अपराह्न)
2.	सुश्री रेवती वेदी, महानिदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली	दिनांक 31.08.2014 (अपराह्न)
3.	सुश्री लक्ष्मी प्रिया एम. एस. दिनांक 29.08.2014 (अपराह्न)	तकनीकी त्याग-पत्र

एनि जे. मैथ्यू
महानिदेशक (कार्मिक)

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/1810—ज्ञापन सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/1786 दिनांक 30.09.2014 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 756 दिनांक 30.09.2014 के अनुपालन में निम्नलिखित

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड – 2 (₹ 9300 – ₹ 34800/-) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 5400/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है :-

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01.	सुब्रत कुमार नायक – I	01.10.2014 पूर्वान्ह

भगवान नायक
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

वस्त्र मंत्रालय

हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

सं. ए-23023/4/2014-डीसीएचएल/स्था-II----राष्ट्रपति, श्री वाई. के. सूर्यवंशी को भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, सेलम में दिनांक 30.09.2014 (पूर्वाहन) से अगले आदेशों तक के लिये 15,600-39,100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में उप निदेशक (बुनाई) के पद पर पदोन्नत करते हैं ।

राजेश कुमार साहू
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. ए-23023/4/2014-डीसीएचएल/स्था-II----राष्ट्रपति, श्री डी. कार्तिकेयन को भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, सेलम में दिनांक 04.10.2014 (पूर्वाहन) से अगले आदेशों तक के लिये 15,600-39,100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में उप निदेशक (बुनाई) के पद पर पदोन्नत करते हैं ।

राजेश कुमार साहू
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

संख्या ए-23023/4/2014-डीसीएचएल/स्था-II----राष्ट्रपति, श्री सुरेन्द्र कुमार पात्रा को बुनकर सेवा केन्द्र, भुवनेश्वर में दिनांक 30.09.2014 (पूर्वाहन) से अगले आदेशों तक के लिये 15,600-39,100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनमान में उप निदेशक (प्रसंस्करण) के पद पर पदोन्नत करते हैं ।

राजेश कुमार साहू
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई - 400 001, दिनांक 19 सितम्बर 2014

सं. 20/17(2)/2013-सीसीएस/11964----राष्ट्रपति, इस विभाग के परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद के स्टाफ संपर्क अधिकारी (पीबी-2 रु. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन रु. 5,400) श्री गुडीमेला वेणु को दिनांक 20.08.2014 (पूर्वाहन) से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक सामान्य सेवा संगठन/नाभिकीय पनुर्चक्रण बोर्ड, तारापुर में प्रशासनिक अधिकारी-III (पीबी-3 रु. 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रु. 6600) के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
कार्यालय—मुख्य वास्तुक(नई दिल्ली क्षेत्र)
नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2014

सं. 27/09/2003—मु.वा.(न.दि.क्षे.)/स्था./296—302—श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 30.09.2014(अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

नवीन भटनागर
वास्तुक(मुख्यालय एवं योजना)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार
कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
कानपुर—208002, दिनांक 8 अक्टूबर 2014

सं०: 560(3)/4069—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी:-

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	एम एन बी हास्पिटेलिटी पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2013PTC056982	C16109530
2	थ्रीस्टार इन्फोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC039312	C17285461
3	केआरएस मीडिया सेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2012PTC048692	C17980863
4	मा फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2010PTC043029	C17999079
5	श्री कैला निर्माण प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046050	C18065102
6	शारविल इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC044552	C18066324
7	कार्बन पेस्ट लिमिटेड	U24111UP1975PLC004192	C18523803
8	प्राइम पालीफैब प्राइवेट लिमिटेड	U17291UP2011PTC045555	C18773945
9	अमोघ टेक्निकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2009PTC038879	C18828541
10	पैनोप्टिक कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC052065	C18880609
11	रिनीटेक सिनरजिसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC058277	C18913574
12	एपेक्स मरकन्टाइल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड	U51396UP1998PTC023609	C18995753
13	सड्बर होम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058057	C19229327
14	ग्लोब इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC051365	C19321405
15	एस्ट्रल इन्फ्रावेन्चर प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046332	C19321488
16	श्री सेवक इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2006PTC032080	C19383132
17	हाईटेक इन्फ्राइन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC046370	C19462282
18	वोलेक्स साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC057472	C19498989
19	एक्सिस टेकसाफ्ट सेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2009PTC038491	C19575323
20	सनीसिस फूडस प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2012PTC051723	C19632793

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
21	रीगल माइक्रोसिस प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2003PTC027230	C19890250
22	न्यूरान साफ्टसेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC056882	C19975572
23	ओमेक्स लाजिस्टिक्स सेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U60231UP2012PTC049631	C20002341
24	शिवा वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2011PTC046439	C20152484
25	कायाट्रिक्स टेकनोलाजिसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC048063	C20297263
26	ए पी पैन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U16000UP2008PTC034717	C20445193
27	श्री बांके बिहारी ब्रेड एण्ड बेकरी प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2011PTC046621	C20494951
28	त्रिवोली बैंकेट्स एण्ड गार्डेन्स प्राइवेट लिमिटेड	U55204UP2013PTC059820	C20561452
29	रेडियेंट नेट सेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC047668	C20764320
30	श्री बालाजी लेड एलायस एण्ड पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC054222	C20865937
31	बिरमा बेवरेजेस एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2011PTC046053	C20920245
32	एक्टाकेयर सिक्यूरिटी एण्ड फायर सेल्सूशन प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2011PTC044206	C20947768
33	काशी आर्युवैदिक प्राइवेट लिमिटेड	U33119UP2009PTC037233	C21050257
34	रियल इण्डिया हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2013PLC060340	C21217435
35	प्रथम प्रिंटवेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC048912	C21346069
36	सुपरपाली प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	U25209UP1969PTC003277	C21613385
37	इनान्दी माल्ट विहस्की कम्पनी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U52208UP2009PTC037622	C21843396

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

सं०: 560(5)/4161—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :—

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	एज कमोडिटीस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC051186	C11114345
2	बाइरान फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2007PTC034304	C11116514
3	एलोकान वीनियो टेलीकम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC045337	C12641775
4	गउमाता इन्फालैण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC055440	C13862594
5	ईकेएन लनिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC047037	C13992946
6	एकाडिया रिसर्च लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	U73100UP2009PTC036700	C14082564
7	लोक वैली इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2002PTC026998	C14324644

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
8	एनएसपिरेटल टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2009PTC038155	C14477566
9	डीसेंट एश्योरेंस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC036932	C14648372
10	वदूद मेडिकल डेविसेस प्राइवेट लिमिटेड	U33115UP2004PTC029372	C14756464
11	राइजिंग डेवलपिंगस प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033444	C14872394
12	लारेस स्मार्ट सिटी रियलर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049199	C15044837
13	वी जी वायरलेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2012PTC051531	C15121510
14	हेडवे वेबसेल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC046681	C15199789
15	दयालफॉट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2006PTC032136	C15200363
16	यूनीकैम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	U24231UP1996PTC019779	C15232713
17	ईस्टर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24231UP2000PTC025421	C15466337
18	के वाई के फैशनस प्राइवेट लिमिटेड	U18204UP2013PTC054763	C15528557
19	ओम एन जे सोलर पावर एण्ड रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U40300UP2013PTC059250	C15769862
20	एनालाग इन्स्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U52334UP1986PTC008421	C15787849
21	ए एस एम इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2010PTC042913	C16130031
22	श्री किशनादया सेल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2014PTC063068	C16180762
23	गिलस्टर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP2000PTC025747	C16643520
24	ए डी कान्सेप्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC046236	C16720963
25	स्वातीइन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC045632	C16722134
26	वीसिक्थोर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC043658	C16722662
27	ग्राउन टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC045670	C16790396
28	श्री राम मेता कास्ट प्राइवेट लिमिटेड	U27310UP2011PTC045504	C16828048
29	प्रतिज्ञा लैंड डेवलपर्स एण्ड एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2013PLC061602	C16840464
30	सिम्लेक्स ग्रिटस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC045214	C16881450

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. मजेईव टूर्स एण्ड ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

सं. 6510—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. मजेईव टूर्स एण्ड ट्रेवलस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

सुधीर लीलाधर फाये
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi – 110003, the 26th September 2014

No. O.II.3987/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. KiranKumar Mandala, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600--39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 15-09-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

VIVEK VAID
DIG (Pers)

The 4th September 2014

No. O.II.3980/14-Pers-MOs—Consequent on acceptance of his resignation by the competent authority, Dr. Arvind Shrimant Sadafule, Medical Officer (Asstt. Comdt.), IRLA-10349 of CH CRPF, Pune, CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 12th Sept, 2014. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force wef. 12.09.2014 (AN).

VIVEK VAID
DIG (Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
ECONOMIC AND SERVICE MINISTRIES
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT

New Delhi-110002, the 28th August 2014

No. AMG-I/Admn.I/2 (1)/GZT/2014/625—The Principal Director of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion of the following Assistant Audit Officers as Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/-, with Grade Pay Rs. 5,400/-, from the date shown against them :—

Sl. No.	Name S/Shri	Date of promotion
1.	Sudhir Kant Sharma	01.03.2013
2.	Lalit Kumar Nimbal	02.09.2013
3.	Gopal Thakur	01.01.2014
4.	Rajesh Kumar	01.04.2014
5.	Sk. Asgar Ali	11.06.2014
6.	Rakesh Kumar	01.07.2014
7.	P.R.Pachapur	01.07.2014

V. M. V. NAWAL KISHORE
Director (Admn.)

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110124, the 30th September 2014

No. 4129 - GE-I/13-2006—The following IA&AS officer have retired on superannuation/resigned from Government service from the date shown against their names :—

Sl. No.	Name of the officer and Designation S/Shri/Ms.	Date of Retirement/Resignation
1.	K. P. Sasidharan, Director General of Audit, Central, Mumbai	31.08.2014 (AN)

Sl. No.	Name of the officer and Designation S/Shri/Ms.	Date of Retirement/Resignation
2.	Ms. Revathy Bedi, Director General, O/o Comptroller & Auditor General of India, New Delhi	31.08.2014 (AN)
3.	Ms. Lakshmi Priya M .S. Officer Trainee, O/o Director General, National Academy of Audit & Accounts, Shimla	Technical Resignation wef. 29.08.2014 (AN)

ANNIE G. MATHEW
Director General (P)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT),
ODISHA

Bhubaneswar, the 7th October 2014

No. Admn(G&SSA)/17-2(AO)Vol.VIII/1810—In pursuance of OOC No. 756 dated 30.09.2014 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2/ (AO)/Vol.VIII /1786 dated 30.09.2014 the following Asst. Audit Officer on promotion has assumed the charge as Audit Officer (Civil) in Pay Band – 2 (₹ 9300 – ₹ 34800/-) with corresponding Grade Pay of ₹ 5400/- with effect from the date as indicated against him.

Sl. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of taking over charge as Audit Officer
01.	Subrat Kumar Nayak-I	01.10.2014 FN

BHAGABAN NAYAK
Sr. Audit Officer/ Admn.

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 7th October 2014

No. A-23023/4/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri Y. K. Suryavanshi as Deputy Director (Weaving) in the pay-scale of Rs.15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Salem w.e.f. the forenoon of 30th September 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-23023/4/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri D. Karthikeyan as Deputy Director (Weaving) in the pay-scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Salem w.e.f. the forenoon of 4th October 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU
Addl. Development Commissioner (HL)

No. A-23023/4/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri Surendra Kumar Patra as Deputy Director (Processing) in the pay-scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Weavers' Service Centre, Bhubaneswar w.e.f. the forenoon of 30th September 2014 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU
Addl. Development Commissioner (HL)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai- 400 001, the 19th September 2014

No.20/17(2)/2013-CCS/11964—The President is pleased to appoint Shri Gudimella Venu, Staff Relations Officer (PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400/-), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad of this Department as Administrative Officer-III (PB-3 Rs.15,600--39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in General Services Organization/Nuclear Recycle Board, Tarapur, w.e.f. 20.08.2014 (FN) until further orders.

A. SUKUMARAN
Under Secretary

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

OFFICE OF CHIEF ARCHITECT (NDR)

New Delhi, the 30th September 2014

No. 27/9/2003-CA (NDR)Estt./1697-1704—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri S. S. Sisodia, Tech. Officer, Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi-110011, retires from Govt. Service with effect from the afternoon of 30.09.2014.

NAVEEN BHATNAGAR
Architect (HQ-cum-Planning)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/o. REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of companies Act, 1956 and of following companies

Kanpur-208001, the 8th October 2014

No.LC/560(3)/4069—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Sl. No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	MNB HOSPITALITY PARTNER PRIVATE LIMITED	U15122UP2013PTC056982	C16109530
2	THREESTAR INFOALES PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC039312	C17285461
3	KRS MEDIA SOLUTION PRIVATE LIMITED	U93030UP2012PTC048692	C17980863
4	MAA FINMART PRIVATE LIMITED	U74120UP2010PTC043029	C17999079
5	SHRI KAILA NIRMAN PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046050	C18065102
6	SHARVIL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC044552	C18066324
7	CARBON PASTE LIMITED	U24111UP1975PLC004192	C18523803
8	PRIME POLYFAB PRIVATE LIMITED	U17291UP2011PTC045555	C18773945
9	AMOGH TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74992UP2009PTC038879	C18828541
10	PANOPTIC CONSTRUCTION & INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC052065	C18880609
11	RINETEC SYNERGIES PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC058277	C18913574
12	APEX MERCANTILE BUSINESS PRIVATE LIMITED	U51396UP1998PTC023609	C18995753

Sl. No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
13	SAIBER HOMES INDIA PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC058057	C19229327
14	GLOBE INFRAZONE PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC051365	C19321405
15	ASTRAL INFRAVENTURE PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046332	C19321488
16	SHREE SEWAK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74999UP2006PTC032080	C19383132
17	HITECH INFRAENGINEERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC046370	C19462282
18	VOLEX SOFTECH PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC057472	C19498989
19	AXIS TECHSOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2009PTC038491	C19575323
20	SUNESIS FOODS PRIVATE LIMITED	U15122UP2012PTC051723	C19632793
21	RIGEL MICROSYS PRIVATE LIMITED	U72900UP2003PTC027230	C19890250
22	NEURON SOFTSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC056882	C19975572
23	OMEX LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U60231UP2012PTC049631	C20002341
24	SHIVA WINES PRIVATE LIMITED	U15122UP2011PTC046439	C20152484
25	KAYATRIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC048063	C20297263
26	A.P.PAN PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U16000UP2008PTC034717	C20445193
27	SHRI BANKEY BIHARI BREAD & BAKERY PRIVATE LIMITED	U15122UP2011PTC046621	C20494951
28	TRIVOLI BANQUETS & GARDENS PRIVATE LIMITED	U55204UP2013PTC059820	C20561452
29	RADIANT NET SOLUTION PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC047668	C20764320
30	SHREE BALAJI LEAD ALLOYS AND PIGMENTS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC054222	C20865937
31	BIRMA BEVERAGES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U15122UP2011PTC046053	C20920245
32	XTRACARE SECURITY & FIRE SOLUTION PRIVATE LIMITED	U93030UP2011PTC044206	C20947768
33	KASHI AYURVEDIC PRIVATE LIMITED	U33119UP2009PTC037233	C21050257
34	REAL INDIA HOUSING PROJECT LIMITED	U45201UP2013PLC060340	C21217435
35	PRATHAM PRINTVENTURES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC048912	C21346069
36	SUPERPOLY PLAST PRIVATE LIMITED	U25209UP1969PTC003277	C21613385
37	INANDI MALT WHISKY COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED	U52208UP2009PTC037622	C21843396

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of companies Act, 1956 and of following companies

Kanpur-208001, the 10th October 2014

No.LC/560(5)/4161—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved.

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	EDGE COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC051186	C11114345
2	BYRON PHARMA PRIVATE LIMITED	U24232UP2007PTC034304	C11116514
3	ALOCON VENIO TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC045337	C12641775
4	GAUMATA INFRALAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC055440	C13862594
5	EKN LEARNING PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC047037	C13992946
6	ACADIA RESEARCH LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U73100UP2009PTC036700	C14082564
7	LOK VALLEY INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72200UP2002PTC026998	C14324644
8	NSPIRETEL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2009PTC038155	C14477566
9	DECENT ASSURANCE CONSULTANT PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC036932	C14648372
10	WADOOD MEDICARE DEVICES PRIVATE LIMITED	U33115UP2004PTC029372	C14756464
11	RISING DWELLINGS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033444	C14872394
12	LARES SMART CITY REALTORS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049199	C15044837
13	B G WIRELESS PRIVATE LIMITED	U72300UP2012PTC051531	C15121510
14	HEADWAY WEBSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC046681	C15199789
15	DAYALFORT HOTELS PRIVATE LIMITED	U93030UP2006PTC032136	C15200363
16	UNICHEM PHARMA PRIVATE LIMITED	U24231UP1996PTC019779	C15232713
17	EASTER PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24231UP2000PTC025421	C15466337
18	KYK FASHIONS PRIVATE LIMITED	U18204UP2013PTC054763	C15528557
19	OM AN J SOLAR POWER AND REALITY PRIVATE LIMITED	U40300UP2013PTC059250	C15769862
20	ANALOG INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED	U52334UP1986PTC008421	C15787849
21	ASM INFRACITY PRIVATE LIMITED	U45400UP2010PTC042913	C16130031
22	SHRI KRISHNADYA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900UP2014PTC063068	C16180762
23	GLISTER HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24232UP2000PTC025747	C16643520
24	A D CONCEPT MARKETING PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC046236	C16720963

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
25	SWATI INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC045632	C16722134
26	VSECURE INFRA TECH PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC043658	C16722662
27	GROWAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC045670	C16790396
28	SHREE RAM META CAST PRIVATE LIMITED	U27310UP2011PTC045504	C16828048
29	PRATIGYAN LAND DEVELOPERS AND AGRICULTURE LIMITED	U70100UP2013PLC061602	C16840464
30	SIMPLEX GRITS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC045214	C16881450

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mazaev Tours and Travel Private Limited

Panaji-403001, the 7th October 2014

No. 6510—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Mazaev Tours and Travel Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SUDHIR LILADHAR PHAYE
Assistant Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in